

## आज भारत एक स्वर में कह रहा...

# Quit India Movement को याद करते हुए पीएम मोदी का विपक्षी दलों पर प्रहार

**‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की बरसी पर हिरासत में लिए गए महात्मा गांधी के परपोते तुषार**



मुंबई। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को मुंबई में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की पुष्टि की है। उनका दावा है कि वह भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मनाने के लिए निकले थे लेकिन सांता क्लॉउस पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तुषार गांधी ने ट्विटर पर लिखा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मनाने के लिए घर से बाहर निकला था और सांता क्लॉउस पुलिस स्टेशन में डिटॉन कर लिया गया। मुझे अपने दादा-दादी महात्मा गांधी और बा पर गर्व है जिन्हें इसी ऐतिहासिक तारीख पर अंग्रेजों ने हिरासत में लिया था।

**जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को आगामी पांच सितंबर तक बढ़ाया**

जयपुर। राजस्थान में सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने तथा उनका वास्तविक लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को आगामी पांच सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर कहा कि जनता की उत्सुकतापूर्ण भागीदारी, रुचि एवं उत्साह के दृष्टिकोण जनता की भावना के सम्मान में जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को पांच सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने कहा आप सभी इस मौके का लाभ लेते हुए रचनात्मक वीडियो बनाएं और रोज आकर्षक इनम पाएं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को जन हितैषी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी देने तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन को सम्मानपूर्वक सुनिश्चित रूप से प्रदान करने के लिए गत सात जुलाई से छह अगस्त तक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता 'जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट' आयोजित की गई।

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले वीरों को याद किया है। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। राजवंश भारत छोड़ो। तुष्टीकरण भारत छोड़ो।

**वंशवाद के जरिए विपक्ष को घेरा**  
वंशवाद भारत छोड़ो नारे के जरिए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्षी दलों पर वंशवाद का आरोप लगाती है। पीएम मोदी ने कई बार अपने चुनावी रैलियों में देश की जनता को भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों से



दूरियां बनाने की बात कही है। आंदोलन ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें। भारत की आजादी के लिए 9 अगस्त 1942 का दिन काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी के आह्वान पर देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। राजवंश भारत छोड़ो। तुष्टीकरण भारत छोड़ो।

का बिगुल बज गया था। इस आंदोलन में हर उम्र वर्ग के लोग शामिल हुए। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं।

## नासिर और जुनैद का बदला लेने राजस्थान से भी आए दंगाई, नूह में जमकर आग लगाई

नूह। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के पीछे भले ही पुलिस अभी तक किसी 'मास्टरमाइंड' की तलाश नहीं कर पाई है, लेकिन यह तो तय है कि दंगाई पहले से इसकी तैयारी में थे। नूह में आग लगाने वाले सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे बल्कि बाहर से भी आए थे। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में दंगाई नूह पहुंचे थे और जमकर उपद्रव मचाया। बताया जा रहा है कि हिंसा में शामिल रहे राजस्थान के ये आरोपी नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने के लिए आए थे। इनका मानना था कि कथित तौर पर नासिर और जुनैद की हत्या करने वाले गौरेखों पर पुलिस ने पर्याप्त एक्शन नहीं लिया। राजस्थान के भरतपुर और अलवर से आकर हिंसा करने वाले करीब 20 सदस्यों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है जबकि करीब 50 की तलाश चल रही है। चार आरोपी घाटमोका के रहने वाले हैं, जोकि नासिर और जुनैद का गांव है। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि बदला लेने के लिए वे नूह आए थे। वे मोनु मानेसर समेत अन्य गौरेखों से वह नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेना चाहते थे। मोनु मानेसर के यात्रा में शामिल होने के प्लान और दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर दी जा रही चुनौतियों के बीच ये आरोपी नूह पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक, एक आरोपी ने पुलिस के सामने कहा कि घटना के कई महीने बाद भी मोनु मानेसर पकड़ा नहीं गया है। कुछ दिन तक अंडरग्राउंड रहने के बाद वह लगातार हम लोगों को चिढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट

करके चुनौती दी जा रही थी। यात्रा में शामिल होने का प्लान किया। हमें यह बदले का मौका देना और हम आगे बढ़ गए। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने बदला लेने के लिए एक वॉट्सऐप ग्रुप का भी इस्तेमाल किया। नूह के



एसपी नरेंद्र बिरजानिया ने कहा है कि पुलिस राजस्थान पुलिस से संपर्क में है और आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद ले रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस सहयोग कर रही है और अब तक कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद की हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई थी। 15 फरवरी को लापता हुए पशु व्यापारी नासिर और जुनैद की जली हुई लाश 16 फरवरी को बरामद की गई थी। दोनों को बोलेंगो गाड़ी के साथ जला दिया गया था। हत्या का आरोप मोनु मानेसर समेत अन्य गौरेखों पर लगा। तब से ही भरतपुर, अलवर से लेकर हरियाणा के कुछ जिलों में तनाव बना हुआ था।

## टमाटर के बाद रुलाएगा प्याज ? सप्लाई में कमी की वजह से बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। टमाटर के बाद अब प्याज भी आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है। देश की कई बड़ी मंडियों में प्याज की सप्लाई में कमी की वजह से जानकारों का कहना है कि कुछ दिन में प्याज की कीमतें भी आम आदमी को रुला सकती हैं। बता दें कि टमाटर की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों टमाटर 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। राहत वाली बात यह है कि टमाटर की स्टॉक कम होता है। वहीं सरकार के पास प्याज का लगभग ढाई लाख टन रिजर्व है जो कि समय आने पर खोला जा सकता है। दरअसल टमाटर और प्याज दोनों ही ऐसी सब्जियां हैं जो कि ज्यादा डिमंड बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। किसानों का कहना है कि स्टॉक किए गए प्याज को भारी नुकसान हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र की लसालगांव मंडी के सेंकटरी ने



बताया कि जो प्याज का भंडार किया गया था वह आधा खराब हो चुका है। ऐसे में टमाटर की सप्लाई में कमी आ रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, सरकार प्याज की डिमांड और सप्लाई पर नजर रख रही है। प्याज ही नहीं पूरे देश में 22 जरूरी सामान पर सरकार की नजर है। चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार के पास अच्छे भंडार हैं। समय आने पर

सितंबर क्राइसिस वाला होता है। अक्टूबर में अब प्याज की अगली फसल आ जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस समय आम तौर पर प्याज की कीमतें 25 रुपये प्रति किलो हैं। हालांकि बाजार की बात करें तो अच्छे प्याज 30 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है। एक जानकार ने कहा कि इस बार फरवरी में तापमान बढ़ने की वजह से प्याज जल्दी तैयार हो गया था। हालांकि इसे रखने का समय कम हो गया। इस वजह से प्याज की कमी हो सकती है। प्याज की क्राइसिस की वजह से इसे फरवरी और मार्च में ही बेचने की कोशिशें की गईं। वैसे भी अगस्त के आखिरी में रबी का स्टॉक कम हो जाता है। ऐ में बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। हालांकि खाने-पीने की अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच अगर प्याज भी इटका देता है तो आम आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

## उत्तराखंड में पहाड़ से गिरे पत्थर, होटल ढह लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-श्रीनगर हवाई बंद, अमरनाथ यात्रा रोकी गई

नई दिल्ली। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हुईं। रामपुर में पहाड़ों से पत्थर गिरने से होटल ढह गया। रुद्रप्रयाग के उत्तरकाशी में सड़क का एक हिस्सा टूट गया। उधर जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। जिसके चलते अमरनाथ यात्रा रोकी पड़ी। लोगों को नेशनल हाईवे - 44 पर न जाने की सलाह दी गई। पौड़ी गढ़वाल जिले के थाना कोटद्वार के अंतर्गत मालन पुल के पास नदी में 15 लोग फंस गए थे। जिन्हें SDRF की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। हल्द्वानी में 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। काठगोदाम के कलसिया में फंसे डेढ़ सौ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गौला नदी में भारी पानी आया है, जिसके बाद बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं कलसिया नाले से घरों को भारी नुकसान हुआ है, अभी तक दो मकान क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। मानसूनी सिस्टम के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि विष्णुपुर के झाला में हिंसा भड़क गई थी और तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कुकी हस्तानों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियान के



में ओवरऑल बारिश का आंकड़ा घट गया है। सोमवार तक ओवरऑल 9 प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई थी। यह आंकड़ा मंगलवार को 6 प्रतिशत तक पहुंच गया। बुधवार को आंकड़े में और कमी आ सकती है।

## महाराष्ट्र की भाजपा नेता सना खान जबलपुर से लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

जबलपुर। महाराष्ट्र भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता सना खान जबलपुर आकर लापता हो गई हैं। मंगलवार को सना के परिजन उन्हें तलाशते हुए जबलपुर पहुंचे और यहाँ उन्होंने गोरबाजार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नागपुर के मानकापुर इलाके में रहने वाली सना खान ने छह महीने पहले बिलहरी निवासी ढाबा संचालक अमित साहू (पप्पू) से विवाह किया था। एक अगस्त को वह अपनी मां को सूचना देकर जबलपुर के लिए निकली थीं। दो अगस्त को सना ने रिश्तेदार इमरान को फोन कर जबलपुर पहुंचने की जानकारी दी। इसी दिन शाम को उन्होंने दोबारा इमरान से फोन पर बात कर अमित साहू द्वारा मारपीट करने की बात कही। इमरान ने यह जानकारी सना की मां मेहरनिसा को दी।



कही। इमरान ने यह जानकारी सना की मां मेहरनिसा को दी। मेहरनिसा ने सना से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके तीनों मोबाइल फोन बंद मिले। इसके बाद उन्होंने दोबारा संचालक अमित साहू को फोन किया। साथ मंगलवार को जबलपुर पहुंचे और गोरबाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नागपुर के मानकापुर इलाके में रहने वाली सना खान ने छह महीने पहले बिलहरी निवासी ढाबा संचालक अमित साहू (पप्पू) से विवाह किया था। एक अगस्त को वह अपनी मां को सूचना देकर जबलपुर के लिए निकली थीं। दो अगस्त को सना ने रिश्तेदार इमरान को फोन कर जबलपुर पहुंचने की जानकारी दी। इसी दिन शाम को उन्होंने दोबारा इमरान से फोन पर बात कर अमित साहू द्वारा मारपीट करने की बात कही। इमरान ने यह जानकारी सना की मां मेहरनिसा को दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमित ने उनकी बहन की हत्या कर शव को हिरण नदी में फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस अमित के बिलहरी स्थित घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जप्त किए हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। मोसिन व मोबिन का आरोप है कि ढाबे में काम करने वाले एक नौकर ने उनसे बताया कि दो अगस्त को अमित अपनी कार लेकर पहुंचा था, जिसकी डिककी में खून लगा हुआ था। जबलपुर कैद थाने की सीएसपी तुषार सिंह ने मामले में हिंसा की जांच करते देते हुए बताया कि नागपुर निवासी सना खान उर्फ हिना के परिजन गोरबाजार थाने पहुंचे हैं, जहाँ बताया कि सना लापता है। उन्होंने नागपुर में सना की गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# असम राइफल्स पर ही क्यों भड़के हैं मणिपुरी, अब भाजपा भी विरोध में उतरी

इंफाल। असम में पुलिस और असम राइफल्स के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। मणिपुर पुलिस ने 9 असम राइफल्स के खिलाफ स्वतः सजावन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का आरोप है कि असम राइफल्स में अत्याचारों को शामिल कर लिया गया है और अब वे पुलिस के काम में टांग अड़ते हैं। वहीं अब मणिपुर भाजपा ने भी असम राइफल्स को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि विष्णुपुर के झाला में हिंसा भड़क गई थी और तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कुकी हस्तानों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियान के

दौरान असम राइफल्स ने बाधा डाली और उनके वाहनों को रोका। असम राइफल्स में बीच में खड़ी की वैन पुलिस का कहना है कि पुलिस के अपरेशन के दौरान असम राइफल्स ने बीच में अपने वाहन कब्जे कर दिए। इसके बाद कुकी उग्रवादी भाग निकले और उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इसी मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं कुछ दिन पहले ही पुलिस और असम राइफल्स के जवान के बीच बहस का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिसकर्मी कह रहा था कि असम राइफल्स उनके काम में बाधा डाल रही है। वहीं जवान ने कहा कि वह केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

भाजपा ने पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन असम राइफल्स के खिलाफ मणिपुर भाजपा में भी आवाज उठी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि मणिपुर से पूरी तरह असम राइफल्स को हटा लिया जाए। उसकी जगह किसी और बल को तैनात किया जाए क्योंकि असम राइफल्स निष्पक्षता बनाने में नाकाम रही है। इस ज्ञापन में कहा गया कि हिंसा शुरू होने के पहले दिन से ही असम राइफल्स का रवैया गलत रहा है और यह शांति स्थापित नहीं कर पा है। इसके चलते जनता में भी असम राइफल्स के प्रति गुस्सा है। विष्णुपुर में चेक पॉइंट से हटाई गई



असम राइफल्स रविवार को महिलाओं ने इंफाल में कई जगह

पर प्रदर्शन किए और असम राइफल्स को हटाने की मांग की। इसके बाद तुरंत फैसला किया गया और सोमवार को ही विष्णुपुर के चेक पोस्ट से असम राइफल्स को हटा दिया गया। आर्मी ने क्या कहा-आर्मी ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए कार्रवाई में वह और असम राइफल्स दृढ़ रहेंगे। सेना की स्पौर और ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि असम राइफल्स की छवि धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत प्रयास किए गए हैं, जो जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने में लगी हुई है। बयान में कहा गया है, कुछ उपद्रवी तत्वों ने

तीन मई से मणिपुर में लोगों की जान बचाने और शांति बहाल करने की दिशा में लगातार काम कर रहे केंद्रीय सुरक्षा बलों, विशेष रूप से असम राइफल्स की भूमिका, इरादे पर सवाल उठाने के बार-बार और असफल प्रयास किए हैं। सेना ने कहा कि मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए कार्रवाई में वह और असम राइफल्स दृढ़ रहेंगे। सेना की स्पौर और ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि असम राइफल्स की छवि धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत प्रयास किए गए हैं, जो जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने में लगी हुई है। बयान में कहा गया है, कुछ उपद्रवी तत्वों ने

## आदिवासियों के पारंपरिक औषधीय ज्ञान का इतिहास



आदिवासी पूर्णतः प्रकृति पर आधारित हैं। आदिवासियों के लिए जंगली पेड़-पौधों का दायरा काफी विस्तृत है इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा औषधीय पेड़-पौधों का है। इन पेड़-पौधों से जुड़ाव और लाभ की एक पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आदिवासी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के केन्द्र में हैं। भारतीय ग्रंथों में जड़ी-बूटी तथा इसके ज्ञान का गुणगान भरा पड़ा है। झारखण्ड के सुदूर जंगलों और पहाड़ियों की तलहटी में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों के बीच जिस प्रकार के औषधीय पौधों (इथनिक मेडिसिनल प्लांट) का ज्ञान है तथा जिस तरह से इन पौधों से असाध्य रोग भी साध्य हो जाता है।

झारखण्ड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें कुछ बहुसंख्यक हैं तो कुछ अल्पसंख्यक, कुछ जनजातियां तो इन दिनों भी खाद्य संग्रह तथा आखेट के साथ-साथ स्थानांतरित कृषि पर ही आश्रित हैं, जिसके कारण इन्हें यहाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी संख्या आठ है। सौरिया पहाड़ियाँ जो राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करती हैं तथा बिरहोर जो मुख्य रूप से हजारीबाग, गुमला तथा रांची के जंगलों में रहते हैं इसी आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह पशुपालन, कृषि और मजदूरी पर पूर्ण रूप से निर्भर बेदिवा जनजाति

झारखण्ड की बहुसंख्यक जनजाति है, जो हजारीबाग के रामगढ़, गोला, मांडू, पतरातू तथा रांची के सिल्ली और ओरमांडी में निवास करती है। मानव वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह बात उभर कर सामने आई है कि लगभग 288 प्रकार की जंगली जड़ी-बूटी इन लोगों के बीच है जो मानव कल्याण के लिए संजीवनी बूटी के समान है, बिरहोर के बीच हथ्या-जोड़ी तथा प्रेम जोड़ी नामक एक ऐसी जड़ी है, जिससे पति-पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिका के बीच उपजे क्षणिक मतभेदों तथा कटुता तो दूर होती ही है साथ ही दोनों के बीच और भी अधिक प्यार परवान चढ़ता है।

### जड़ी-बूटियाँ और उनसे इलाज:

1. पाताल कोहड़ा, कुजरी लत्तर का तेल पुराना सोम के लत्तर की जड़-टीबी
2. मिंजु चुटिया की जड़ तथा बरगद के तना से निकली नयी जड़ मिसरीके साथ सेवन-पतला पैखाना होने पर
3. उड़हुल फूल, सतुरी, केवामला, सिमल कन्दा, कारी जिरि, उजला फूलवाला पलाश - धात की बीमारी तथा प्रदर, जॉन्डिस
4. पान पत्ता की जड़ गुलेची फल, गोलकी, सिमजगा, मिंजु गोड़-गर्भ निरोधक सदा के लिए
5. कलिहारी के लत्तर की जड़-गर्भपात को ठीक करने में
6. तोजा का जड़ - पेट की पथरी गलाने में

7. बेंग साग - पीला पेशाब या पेट की गर्मी दूर करने में
8. मोथा घास की जड़ - बवासीर
9. डुमर का फल, मिसरी - बवासीर
10. दूध, राज घास, पपीता - माँ के दूध की कमी दूर करने हेतु
11. पलास का बीज, चिरौता - पेट के कीड़े का नाश करता है
12. छतनी, छटवन की छल - शूल तथा पाचन क्रिया को ठीक करने में
13. निडरी की छल - हैजा, निमोनिया
14. कुरसी के बीज का तेल तथा पूरण कंदा - गठिया में
15. इसरैर की जड़, सर्पंधा, चपीट, सालमणी - साँप के विष को उतारने में
16. तेजोमला - अतिसार
17. भेंगरा - पिल्ही
18. झाड़ी - मस्तिष्क के रोगों में
19. काली बसाक का पत्ता - खाँसी
20. काली मसूली - हड्डी के चोट में
21. अख गंध, इच धर्षई - शक्ति वर्धक
22. झुखुरी - ज्वर नाशक
23. बन प्याज - हृदय रोग

इसके अलावा कुसुम, अमलतास, मलकगनी, गुरिच, वराही कंदा भूआमला, सरफूला, तितामोट, भेंगराज, करंज, खैर, पाकड़, बेल, अर्जुन, आवंला, गोला-गोला साग, सरोंट साग, सिंदुआर साग, पीपल टुम्सी, टेवल कंदा, पेचकी, पौरैया फूल आदि भी रोगों के इलाज में काम आते हैं।

आदिवासियों के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन विशेषण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासियों को जितना लगाव प्रकृति से है इतना ही खुलकर प्रकृति में भी इन पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि रही है। यही कारण है कि प्रकृति की हर सुविधा के साथ आदिवासियों को संपूर्ण औषधीय सुविधा प्रकृति प्रदत्त है परन्तु इससे भी बड़ी बात यह है कि आदिवासियों में प्राचीन औषधीय पौधों एवं उपयोगिता का भी जबर्जस्त ज्ञान है और यह व्यवहारिक ज्ञान प्राचीन ऐतिहासिक काल खण्ड से आज तक किसी न किसी राज्य में विद्यमान है। अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि आदिवासियों में पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से औषधीय पेड़-पौधों के व्यवहार एवं औषधीय पौधों का अकूत ज्ञान भण्डार आदिवासियों के पास विद्यमान है।

## संपादकीय

### टकराव नहीं सहयोग

संसद के उच्च सदन राज्य सभा में सात घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2023' पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 131 जबकि विरोध में 102 मत पड़े। लोक सभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधेयक पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के तबादले शुरू किए थे, उसको देखते हुए विधेयक लाना जरूरी हो गया था। दिल्ली सरकार के विरोद्ध कई मामलों की जांच कर रही बिजिलेंस को अपने अधीन रखने के लिए आप सरकार बेचैन थी ताकि भ्रष्टाचार न उजागर हो। दूसरी ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बताया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का मानना है कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक को लाने का नैतिक अधिकार नहीं है, यह संघीय संरचना पर कुठाराघात है, वगैरह-वगैरह। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान देश की राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा में दिल्ली के अधिकार और कार्यों के बारे में चर्चा के साथ सीमित अधिकारों वाली विधानसभा के साथ 1993 में इसे राज्य का दर्जा दिए जाने का पूरा ब्यौरा दिया। जाहिर है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और केंद्र सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दिल्ली के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। निरसिंह भारत एक संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन इसका झुकाव एकात्मक प्रणाली की ओर है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। दक्ष राजनीतिक नेता या किसी राज्य का मुख्यमंत्री इन बातों के आलोक में ही केंद्र के सांख्यिक सहयोग करके अपना शासन चलाता है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय कभी भी केंद्र के साथ टकराव नहीं हुआ और उन्हें हमेशा केंद्र सरकार का सहयोग और समर्थन मिलता रहा। केजरीवाल अपने अल्प राजनीतिक जीवन में इस बात को समझ नहीं पाए। केंद्र सरकार का आरोप है कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के दल-दल में आकंट डूबी हुई है।

### चिंतन-मनन

### सम्यक दृष्टिकोण की जरूरत

आज मानवता को बचाने से अधिक कोई करणीय काम प्रतीत नहीं होता। मनुष्य औद्योगिक और यांत्रिक विकास कर पाए या नहीं, इनसे मानवता की कोई क्षति नहीं होने वाली है, किंतु उसमें मानवीय गुणों का विकास नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। एक मानवता बचानी तो सब कुछ बचेगा। जब इसकी सुरक्षा नहीं हो पाई तो क्या बचेगा? और उस बचने का अर्थ भी क्या होगा? मनुष्य एक सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है, इस तथ्य को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। पर मानव जाति का दुर्भाग्य यह रहा कि उसकी शक्ति मानवता के विकास में खपने के स्थान पर उसके हास में खप रही है। मानवता की सुरक्षा के लिए जिस ऊर्जा को संग्रहित किया गया था, वह हथियार का रूप लेकर उसका संहार कर रही है। मनुष्य के मन की धरती पर उगी हुई करुणा की फसल खूरता से भावित होकर धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। यह एक ऐसा भोगा हुआ यथार्थ है, जिसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति नकार नहीं सकता। पानी को जीवनदाता माना जाता है, सर्वोत्तम तत्व माना जाता है; फिर भी उसके स्वभाव की विचित्रता यह है कि वह ढलान का स्थान प्राप्त होते ही नीचे की ओर बहने लगता है। दूसरों को जीवन देने वाला जल भी जब नीचे की ओर जाने लगे तो उसके कौन रोक सकता है? यही स्थिति आज के मनुष्य की है। सर्वाधिक शक्तिशाली होकर भी यदि वह स्वयं का दुश्मन हो जाए, करुणा को भूलकर खूर बन जाए तो उसे कौन समझ सकता है। इस बात को सब मानते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरकीबों की है। यह बहुत अच्छी बात है किंतु हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान में तारक और मारक दोनों शक्तियाँ होती हैं। कोई आदमी उसकी तारक शक्ति को भूलकर मारक शक्ति को ही काम में लेने लगे, इसमें विज्ञान का क्या दोष इसके पास मानवता या मानव जाति को बचाने की जो विलक्षण शक्ति है, उसे भुला दिया गया और संहार की भयानक शक्ति को उजागर किया गया। इस स्थिति को बदलने के लिए सम्यक दृष्टिकोण के निर्माण की आवश्यकता है।



सनत जैन

राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया पराजित हो गई है। सरकार को 131 मत बिल के समर्थन में प्राप्त हुए हैं वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 102 मत ही प्राप्त हुए। बहुमत और अंकगणित के इस खेल में सरकार जीत गई, और इंडिया हार गई यही कहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से संसद की सर्वोच्चता पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार की शक्तियों को बताया। उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार पूर्ण शासित राज्यों को भी जब चाहे तब उनका विघटन कर सकती है। दिल्ली संशोधन सेवा बिल केंद्र शासित राजधानी, दिल्ली राज्य के लिए लाया गया है। जहाँ पर राज्य सरकार को सीमित अधिकार हैं। गृहमंत्री ने कहा, जो नियम और कानून कांग्रेस की सरकार के



प्रमोद भार्गव

मणिपुर और हरियाणा समेत देश के अनेक क्षेत्रों में रोहिंग्या मुस्लिमों का आतंक और हिंसा से जुड़े होने के स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं। बावजूद तथाकथित मानवतावादी इन घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मणिपुर के बाद हरियाणा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मेवात तक हिंसा, आगजनी और हत्या की जो घटनाएँ सामने आई हैं, उनमें रोहिंग्या की संलिता सामने आई है। म्यांमार से आए कुकी समुदाय का साथ देने के लिए बड़ी संख्या में रोहिंग्या भारत आए थे। पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में रोहिंग्या बस्तियाँ बस चुकी हैं। बंगाल में भी इनकी अवैध बसाहट संकट का सबब बनी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने तो इन्हें यहाँ की धरती पर बसने की वैधता के प्रमाण-पत्र भी दे दिए थे। हरियाणा में नूंट की हिंसा के बाद इनकी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर भी चलाया गया। इस हिंसा में अंतरराष्ट्रीय पड़यंत्र होने के प्रमाण भी मिले हैं। 27 जुलाई को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने हिन्दी में एक टिवट कर देश का सद्भाव बिगाड़ने के लिए बारूद का काम किया। यह भारत विरोधी संगठन है, जिसे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस संरक्षण दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हटाने के प्रयास में भी सोरोस कई संगठनों को आर्थिक मदद कर रहे हैं।

## संसद ही सर्वोपरि, सरकार जीती-इंडिया हारा

समय बने थे। उसमें कामा और फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। उन्होंने पिछले 30 वर्षों का दिल्ली सरकार के अधिकार और केंद्र सरकार के अधिकार को लेकर जब तक केजरीवाल नहीं आए थे। तब तक केन्द्र और राज्य के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। तब इस तरह के बिल लाने की जरूरत नहीं थी। जब से केजरीवाल आए हैं, वह केंद्र की शक्तियों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बिल को लाने की दरकार हुई है ऐसा कहकर उन्होंने बिल का बचाव किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बता दिया कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पीए ने किया गया था। यह सभी शक्तियाँ संसद के पास हैं। उन्होंने संसद की सर्वोच्चता साबित करते हुए, न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित बनाने का प्रयास किया अमित शाह ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। उन्हें कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। इनसे स्पष्ट होता है, कि न्यायपालिका ने जो कानून बनाए हैं। उनकी समीक्षा ही न्यायपालिका का कर सकता है सरकार को लाना है कि वह न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो वह संविधान में समय-समय पर संशोधन भी कर सकती है। नए-नए कानून भी बना सकती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर में जब धारा 370 खत्म की गई उसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य को अलग-अलग राज्यों में

बांटने का काम किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि संसद जब चाहे तब संविधान और नियम और कानूनों में जो चाहे परिवर्तन बहुमत के आधार पर कर सकती है। यदि इसी को सच मान जाए, तो जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत था ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भी नियम कानून बनाए, उन्हें भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भी अब नागरिकों के सुरक्षित नहीं रहे। यदि संसद की इस सर्वोच्चता को ध्यान में रखा जाए, तो इन मौलिक अधिकारों को खत्म करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार जनता को दिए गए हैं। जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनेगी वहीं सरकार बनाएगी। संविधान में संशोधन करके इसे भी बदला जा सकता है। जिस तरह का बदलाव जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाकर किया गया है। उसके बाद अब किसी भी राज्य को तोड़ना और अपने हिसाब से उसे नया स्वरूप देना, यह बहुमत के आधार पर संसद कभी भी कर सकती है। इसके बाद संघीय व्यवस्था और राज्यों के अधिकार केंद्र सरकार की कृपा पर हो जाएंगे। यह इस बिल के पास होने से स्पष्ट हुआ है। इंडिया गठबंधन को मात्र 102 वोट मिले हैं सरकार ने बीजू जनता दल के 9 सांसद और वाईएसआर के 9 सदस्यों का समर्थन हासिल कर

लिया था यदि 18 राज्यसभा सदस्य इंडिया के पक्ष में मतदान करते, तो इनकी सदस्य संख्या 120 हो जाती। एनडीए की संख्या 131 से घटकर 113 हो जाती है। एक गणित के इस सिद्धांत को बहुमत में परिवर्तित करके राजनीतिक कौशल का परिचय केंद्र सरकार देकर यह बता दिया है, कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि पूर्ण बहुमत है। तो उस सरकार को वह सब करने का अधिकार है। जो वह बहुमत के बल पर करना चाहती है। संविधान में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। उसे भी सरकार बहुमत के आधार पर कभी भी बदल सकती है। संविधान भी बदला जा सकता है, और नियम कानून भी बदले जा सकते हैं। इसको लेकर विपक्षी गठबंधन और आम नागरिकों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलने लगी है 2024 का लोकसभा चुनाव यदि इसी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन जीत जाता है। अथवा इस तरीके के भारी बहुमत से यदि कोई भी गठबंधन संसद में पहुंच जाता है तो इसी तरह से कभी भी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। उसे गैरकानूनी भी नहीं ठहराया जा सकेगा। इस हिसाब से इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी गलत नहीं माना जा सकता है। ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का उपयोग राजनैतिक उपयोग के लिये किये जाने के आरोप लग रहे हैं। सांसदों के अधिकार विहिण ने सीमित कर दिये हैं। यह चिंता की बात है।

## रोहिंग्या : सख्ती और संजीदगी से निपटना होगा



अलबत्ता, मणिपुर से हरियाणा तक की हिंसा में रोहिंग्याओं की लिपता के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए इस हकीकत पर पदां डालने की दृष्टि से ह्यरोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह ने 18 अगस्त को भारत में इनकी सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई है जबकि रोहिंग्या युवकों के हिंसा में शामिल होने के आरोप में अनेक प्रार्थमिकियाँ थानों में दर्ज हैं। भारत को अस्थिर करने के लिए तथाकथित विदेशी ताकतें रोहिंग्याओं को औजार बनाने का काम कर रही हैं। म्यांमार में दमन के बाद करीब एक दशक में रोहिंग्या मुस्लिम भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान समेत 18 देशों में पहुंचे हैं। एशिया में जिन देशों में इनकी घुसपैठ हुई है, उनमें से छह देशों की सरकारों के लिए ये परेशानी का सबब बने हुए हैं। भारत में इनको लेकर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। देश में इनकी मौजूदगी से एक तो आपराधिक घटनाएँ

बढ़ रही हैं, दूसरे इनके तार आतंकियों से भी जुड़े पाए गए हैं। प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से इनके संबंधों की तस्दीक हो चुकी है। नतीजतन, देश में कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो रही है। भारत में गैर-कानूनी ढंग से घुसे रोहिंग्या किस हद तक खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसका खुलासा अनेक रिपोर्टों में हो चुका है, बावजूद भारत के कथित मानवाधिकारवादी इनके बचाव में बार-बार आगे आ जाते हैं जबकि दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार से पलायन कर भारत में शरणार्थी बने रोहिंग्या मुसलमानों में से अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने म्यांमार के अशांत खंड प्रान्त में हिन्दुओं का नरसंहार किया हो? भारत की सख्ती के चलते कुछ रोहिंग्या घुसपैठ में असफल होकर नेपाल तक गए हैं। वहाँ इन्हें जहादी गुटों से आतंक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए

आर्थिक मदद मिल रही है। पाकिस्तान में भी करीब ढाई लाख रोहिंग्या पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर को आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर बांग्लादेश की सीमा से भारत में टुकड़ियों में प्रवेश करा दिया जाता है। हेरानो होती है कि इन घुसपैठियों को कुछ लोग मदद गिरोह भारत की नागरिकता का आधार बनाने के लिए मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा कर दे रहे हैं जिसे इन्हें भारत के नगरों में बसने में कोई परेशानी न हो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 2021 में ही रोहिंग्या मुसलमानों को देश में नहीं रहने देने की नीति पर शीघ्र अदालत में एक हलफनामा देकर साफ किया था कि रोहिंग्या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। ये अपने साथियों के लिए फर्जी पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, सभी राज्यों को रोहिंग्या समेत सभी अवैध शरणार्थियों को वापस भेजने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आशंका जताई गई है कि जम्मू के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैदराबाद में रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें जम्मू-कश्मीर में रह रहे म्यांमार के करीब 15,000 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके उन्हें अपने देश वापस भेजने के तरीके तलाश रही हैं। रोहिंग्या मुसलमान ज्यदातर जम्मू और सांबा जिलों में रह रहे हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी 3800 रोहिंग्याओं के रहने की पहचान हुई है। आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अलावा असम, प. बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रोहिंग्या के मुद्दे के सामनायक का उपयोग राजनैतिक उपयोग के लिये उन्होंने कहा है कि इस समस्या के हल के लिए भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत और बांग्लादेश को रोहिंग्याओं को इनके मूल देश में भेजने के लिए खुद ही कठोर उपाय करने होंगे।

## संक्षिप्त डायरी

## जमीयत उलेमा ए हिंद शहर गाजियाबाद का जश्न-यवमें आजादी के मौके पर होने जा रहा है कार्यक्रम

संस्कार उजाला

गाजियाबाद। यह कार्यक्रम 15 अगस्त दिन मंगलवार सुबह के 9:00 बजे से दोपहर के 12:00 तक जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद के दफ्तर दारुल इस्तिलाह व शरहअह के सामने इस्लाम नगर में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी हाफिज मुबीन अहमद मीडिया प्रभारी जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद ने दी, इस कार्यक्रम की सरपरस्ती हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब जिला सदर गाजियाबाद, व नायब सदर जमीयत उलेमा यूपी करेंगे। इस कार्यक्रम में मेहमान ए खुसूसी के तौर पर नबीर शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना मसूद मदनी साहब होंगे और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की जेरे निगरानी हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद मुज्जबा साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद और जेरे सदरत हजरत मौलाना मुहम्मद असलम साहब कासमी सदर जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद करेंगे, कार्यक्रम का मकसद जंग ए आजादी में उलेमा ए किराम और आबाम की कुर्बानियां और आपस में प्यार और मुहब्बत का पैगाम है।



हाफिज मुबीन अहमद मीडिया प्रभारी जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद ने दी, इस कार्यक्रम की सरपरस्ती हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब जिला सदर गाजियाबाद, व नायब सदर जमीयत उलेमा यूपी करेंगे। इस कार्यक्रम में मेहमान ए खुसूसी के तौर पर नबीर शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना मसूद मदनी साहब होंगे और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की जेरे निगरानी हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद मुज्जबा साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद और जेरे सदरत हजरत मौलाना मुहम्मद असलम साहब कासमी सदर जमीयत उलेमा शहर गाजियाबाद करेंगे, कार्यक्रम का मकसद जंग ए आजादी में उलेमा ए किराम और आबाम की कुर्बानियां और आपस में प्यार और मुहब्बत का पैगाम है।

## भट्टाचार उन्मूलन सभा की अध्यक्ष पद पर शामिल हुए अमृताबेन, अमृतलाल बामणिया

संस्कार उजाला

विज्ञापित घोषणा श्रीमति अमृताबेन अमृतलाल बामणिया जी को संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमण और दीव के भट्टाचार उन्मूलन सभा में अध्यक्ष पद पर शामिल किया गया है इनकी नियुक्ति की अनुशंसा, मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष सु. श्री राजश्री चौधरी जी, मा. डा. प्रोफेसर नीरन गौतम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी एवं मा. अनिल तिरपाटी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विक्रम वैश्यजी,



राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मा. आर. के. शर्मा, नोयडा हलदी राम बाबा ट्रांसपोर्ट एवं दैनिक सस्कार उजाला के चीफ संपादक व प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार उन्मूलन सभा श्रीमति रीनु किशोर राची, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली महिला मोर्चा व प्रदेश महासचिव आशा राजपूत दिल्ली एवं उतर भारत राष्ट्रीय प्रभारी मा. डा. गोपाल सिंहाजी लखीमपुर उत्तर प्रदेश एवं मडल प्रभारी एडवोकेट रजनीता कौर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक सगठन मंत्री श्री आर. डी. तिवारी मध्यप्रदेश प्रभारी, एवं शीतल तिवारी जी नोयडा जिला महासचिव भट्टाचार उन्मूलन सभा श्रीमति उषा सोनी जी जिला अध्यक्ष नोयडा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री जय राम गौड़, संघप्रदेश अध्यक्ष श्री तारा गिल, डा. रानी चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार उन्मूलन सभा एवं प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल श्री शर्मा जी, कानपुर महानगर अध्यक्ष कुमारी सोना अवस्थी जी, प्रदेश सगठन मंत्री कुमारी रक्षा गिल आदि ने श्रीमति अमृताबेन को अध्यक्ष, भट्टाचार उन्मूलन सभा को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी और लम्बी उम्र की कामना की, अमृताबेन जी की दीव जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा की तरफ से ढाई साल के लिए नियुक्त की गई थी और अभी भी भाजपा की सदस्य है उन्होंने दो माह के अंदर संघप्रदेश दानह दमण और दीव स्तरीय पदों पर भाजपा के नियम और सिद्धांतों के साथ इस संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने योग्य सभ्य लोगोंकी अपने प्रदेश में नियुक्तियां करेगी, सुशील शर्मा भट्टाचार उन्मूलन सभा आल इंडिया प्रेसिडेंट, अखिल भारत हिन्दू महा सभा वाट शाप+918178405423 जय हिन्दू राष्ट्र जय श्री राम, हिंद की आजादी अभी अथूरी है।

## यूपी में रोजगार के बड़े स्रोत बने एमएसएमई और ओडीओपी

एमएसएमई और ओडीओपी से ही प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार मिला ● 5021 रोजगार मेलों के जरिए 7,29,064 युवाओं को मिला रोजगार ● 6 साल में पारदर्शी ढंग से 6 लाख नौकरी देने वाली योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ रही ● विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ प्रदेश में पौने 2 लाख कामगारों को ट्रेंड करके उनके रोजगार स्किल को निखारा गया

संवाददाता लखनऊ। यूपी में युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए संकल्पित योगी सरकार अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार और निजी क्षेत्रों के रोजगारों में जोड़ने के लिए भी तत्परता से जुटी हुई है। बीते 6 साल में उत्तर प्रदेश में 5 हजार से भी ज्यादा रोजगार मेलों के जरिए लाखों युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में रोजगारों से जोड़ा जा चुका है। वहीं एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर भी प्रदेश में रोजगार के बड़े स्रोत बनकर उभरे हैं। योगी सरकार के दौरान इन दोनों सेक्टरों में अबतक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के बढ़ा कीर्तिमान

रचा गया है। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के क्षेत्र में कार्य कर रही 96 लाख इकाइयों में केवल बीते वित्तीय वर्ष में ही 6,94,751 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वहीं एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के क्षेत्र में 1,35,250 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। दोनों सेक्टरों में कुल कामगारों की बात करें तो ये संख्या लगभग तीन करोड़ तक पहुंचती है। इसके अलावा 5021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 7,29,064 युवाओं को रोजगार दिलाने का कार्य योगी सरकार की ओर से किया गया है। प्रदेश सरकार अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में आए 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जल्द

से जल्द धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। इसके बाद प्रदेश में 95 लाख रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो जाएगा। इनमें से भी ज्यादातर रोजगार एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर में ही होने की संभावना है, जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों को रॉ मैटेरियल, सेवाएं और मानव संसाधन उपलब्ध कराएंगी। बीते 6 साल में तकरीबन 6 लाख युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरी प्रदान करने वाली योगी सरकार का सबसे अधिक जोर इस बात पर भी है कि युवाओं को स्किलड बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। फिर चाहे 150 आर्टीआईई को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अपग्रेड करने की पहल हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान

योजना के साथ गांव के पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र में कार्य रहे 1,73,386 कामगारों के स्किल को निखारकर उन्हें उचित मंच प्रदान करना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश के सभी गांवों में मॉल की तर्ज पर विश्वकर्मा संकुल के निर्माण के निर्देश दिये हैं, जिससे गांव में ही श्रमिकों और कामगारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए उचित स्थान मिल सके। 6 लाख सरकारी नौकरियों को छोड़ दें तो प्रदेश में 50 इन्व्यूटेर तथा 7500 स्टार्टअप भी संचालित हैं। इन्होंने पीजाआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा में एआई के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया है। यही नहीं मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 51

हजार से अधिक युवाओं का उद्योगों एवं अधिष्ठानों में पंजीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर रोजगार के द्वार खोल रहा है। इसी प्रकार अगर प्रदेश के विभिन्न आईटीआई की बात करें तो योगी सरकार के दौरान अबतक 25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 10.20 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो चुका है। इसके अलावा बाकी बचे ज्यादातर युवा स्वरोजगार के जरिए अन्य युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। योगी सरकार इंस्टीट्यूट 4.0 के अनुसार नये उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रदेश के युवाओं को ट्रेड कर रही है। इसके तहत आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, एडवॉर्ड कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में यूपी के युवाओं को

स्किलड बनाया जा रहा है, जिससे उनके सामने बदलती दुनिया के नये जॉब सेक्टरों के द्वार खुल सकें। औसतन हर कार्य दिवस पर 47 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी कर रही योगी सरकार बात दें कि यूपी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश में अबतक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न आयुगों एवं बर्ती बोर्ड द्वारा तबरीबन 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इनमें भी एक लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी योगी सरकार ने प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते वित्तीय वर्ष में पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत 12,236 पदों के सापेक्ष 9000 अर्थाथर्धियों का चयन हुआ है।

## बिजनौर में किराने की दुकान में लगी आग



संवाददाता बिजनौर। इनामपुरा में शॉर्ट सर्किट के चलते एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर आग को बुझाने का काफी प्रयास किया। लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के इनामपुरा का है, जहां गांव के रहने वाले नवीन कुमार ने गांव के मेन बाजार में किराने की दुकान पिछले सात आठ वर्षों से खोल रखी है। दुकान में आज अचानक आग लग

गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं। आग की सूचना पर आसपास के दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई लेकिन तब तक दुकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान स्वामी नवीन का कहना है कि वह दुकान पर छोटे बच्चे को बैठाकर किसी जरूरी काम से मंडावर गये थे। इसी बीच दुकान में बीजली के मीटर की लार्इन में फाल्ट हुआ और चिंगारी से दुकान में आग लग गई। जिससे दुकान में रखा सामान जल गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखा लगभग दो लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है।

## शिव सेना के पदाधिकारियों का हुआ जोरदार स्वागत

संवाददाता धामपुर। डाक बंगले(पी.डब्ल्यू.डी)गेस्ट हाउस में धामपुर, में शिव सेना उद्वेग बाला साहेब ठाकरे के तीनों जिला प्रमुख चौधरी संजय राणा, विकास त्यागी युवा सेना, सोनम त्यागी भवानी सेना, को बिजनौर जिले का प्रमुख बनाए जाने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर ढोल नगाडों, व फूल मालाएं डालकर तीनों जिला अध्यक्षों का भव्य स्वागत किया। और आपस में सभी शिव सैनिकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर सभी ने खुशी मनाई, स्वागत कार्यक्रम में मंडल प्रमुख आर.के.आर्य एडवोकेट ने कहा कि तीनों जिला प्रमुख जिले में शिव सेना को जाति तोड़ो, समाज जोड़ो



के सिद्धांत पर चल कर बाला साहेब ठाकरे जी के सपने को साकार करेंगे व उद्वेग ठाकरे की हिंदुत्व की विचार धारा को आगे बढ़ाने का कार्य सभी शिव सैनिक करेंगे, आज पूरा भारत देश महंगाई, बेरोजगारी, व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को झेल रही

है, भारत के कई राज्य हिंसा की चपेट में है कार्यक्रम में तीनों जिला प्रमुखों ने कहा कि एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा जिले में सदस्य बना कर गांव गांव, नगर नगर में शिव सेना में महिलाओं व पुरुषों को जोड़कर हिंदुत्व की आवाज बुलंद करनी है। और जल्द ही जिले की

समस्त कार्यकारणी बनाकर भ्रष्टाचार व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगी स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्रपाल प्रजापति, मनवीर यादव, संदीप बिल्ला, सत्यपाल सिंह, ब्रजमोहन प्रजापति, महेंद्रसिरोही, रामपाल सिंह ओम प्रकाश धनकर, गौरव प्रजापति, अनिल सैनी, सुरेंद्र प्रजापति, राजू सैनी, नन्नु सैनी, ओम प्रकाश, कांति देवी, सुखिया देवी, साक्षी सैनी, तनु सैनी, दुलारी देवी, शांति देवी, उर्मिला देवी, दीपा सैनी, अनिता सैनी, सावित्री देवी, आदि भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार कुलदीप सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन विनोद चौहान ने किया।

## साढ़ू ने सुपारी देकर कराई थी किसान की हत्या

सुरदाबाद। पुलिस ने 5 दिन पहले हुए साढ़ू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अपने इकलौते बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी साढ़ू की हत्या उसके साढ़ू ने ही सुपारी देकर कराई थी। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। एसएसपी हेमराज मीणा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि साढ़ू की हत्या उसकी प्रांटी पर कब्जे करने के लिए खुद उसके ही

साढ़ू चंद्रपाल ने कराई थी। साढ़ू का इकलौता बेटा आत्महत्या कर चुका था और उसकी कोई औलाद बाकी नहीं थी। ऐसे में साढ़ू के मरने पर साढ़ू की जायदाद उसकी पत्नी के नाम पर जाती। सुपारी देने वाले चंद्रपाल के अपनी साली (साढ़ू की पत्नी) के साथ अवैध संबंध थे। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि साढ़ू के मरने पर वो उसकी करोड़ों रुपये की जमीन-जायदाद पर कब्जा कर लेगा। हत्या की ये घटना सुरदाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर में 4 अगस्त को शाम

करीब 6:30 बजे हुई थी। खेत से चारा लेकर लौट रहे साढ़ू सिंह (58 साल) की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साढ़ू के सिर में गोली मारी गई थी। साढ़ू छजलैट थाना क्षेत्र के गांव पंचोकरा का रहने वाला था। घटना के 15 दिन पहले से वो सदरपुर गांव में अपने भांजे के घर रह रहा था। घटना के समय वो खेत से चारा लेने गया था। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि फरवरी 2023 में साढ़ू के इकलौते बेटे अंकित ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।

## भट्टाचार उन्मूलन सभा में प्रदेश अध्यक्ष पर शामिल हुए राकेश कुमार महता

संस्कार उजाला एडवोकेट श्री राकेशकुमार महता, अस्थाई निवासी - मोटेरा, साबरमती, अहमदाबाद और स्थाई निवासी - डा. केलकर रोड, दीव - ३६२५२० (मो. ९५३७२२२३२९)को गुजरात राज्य प्रदेश के अखिल भारत हिन्दू महासभा प्रणित भट्टाचार उन्मूलन (एटी करप्शन) सभा में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शामिल किया गया है इनकी नियुक्ति की अनुशंसा, मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष सु. श्री राजश्री चौधरी जी, मा. डा. प्रोफेसर नीरन गौतम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी एवं मा. अनिल तिरपाटी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विक्रम वैश्यजी, राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मा. आर. के. शर्मा, नोयडा हलदी राम बाबा ट्रांसपोर्ट एवं दैनिक सस्कार उजाला के चीफ संपादक व प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार उन्मूलन सभा श्रीमति रीनु किशोर राची, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली महिला मोर्चा व प्रदेश महासचिव आशा राजपूत दिल्ली एवं उतर भारत राष्ट्रीय प्रभारी मा. डा. गोपाल सिंहाजी लखीमपुर उत्तर प्रदेश एवं मडल प्रभारी एडवोकेट रजनीता कौर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक सगठन मंत्री श्री आर. डी. तिवारी मध्यप्रदेश प्रभारी, एवं शीतल तिवारी जी नोयडा जिला महासचिव भट्टाचार उन्मूलन सभा श्रीमति उषा सोनी जी जिला अध्यक्ष नोयडा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री जय राम गौड़, संघप्रदेश अध्यक्ष श्री तारा गिल, डा. रानी चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार उन्मूलन सभा एवं प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल श्री शर्मा जी, कानपुर



महानगर अध्यक्ष कुमारी सोना अवस्थी जी, प्रदेश सगठन मंत्री कुमारी रक्षा गिल आदि ने एडवोकेट श्री राकेशकुमार महता को गुजरात राज्य प्रदेश के अखिल भारत हिन्दू महासभा प्रणित भट्टाचार उन्मूलन (एटी करप्शन) सभा में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी और लम्बी उम्र की कामना की, एडवोकेट राकेशकुमार जो अभी भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ (भाजपा प्रणित) के गुजरात राज्य एवं संघप्रदेश दानह, दमण और दीव के प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी के पद पर भी नियुक्त हैं और भाजपा के सदस्य है उन्होंने दो माह के अंदर गुजरात राज्य प्रदेश स्तरीय पदों पर भाजपा और हिंदुत्व के नियम और सिद्धांतों के साथ इस संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने योग्य सभ्य लोगोंकी अपने प्रदेश में नियुक्तियां करेगी, सुशील शर्मा भट्टाचार उन्मूलन सभा आल इंडिया प्रेसिडेंट, अखिल भारत हिन्दू महा सभा वाट शाप+918178405423 जय हिन्दू राष्ट्र जय श्री राम, हिंद की आजादी अभी अथूरी है।

## आजादी के अमृत महोत्सव ने हमें एक नये भारत का दर्शन कराया है : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

काकोरी रेल एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीएम योगी ने शीलापट्ट का अनावरण कर मेरी माटी, मेरा देश अभियान का किया शुभारंभ ● सीएम योगी ने कहा- हम भारत का फिर से विभाजन नहीं होने देंगे



संवाददाता लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी रेल एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को शिलाफलकम (शीलापट्ट) का अनावरण कर ह्यामेरी माटी, मेरा देशल्लह अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महान क्रांतिकारियों, अमर शहीदों, भारत की सीमा की रक्षा करने वाले वीर जवानों और आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव ने हमें एक नये भारत का दर्शन कराया है। हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने लोगों से संकल्पित होकर शहीद स्थलों पर सेल्फी लेने और उसे अपलोड करने का आह्वान



उत्थान और प्रशासनिक कार्य में लगे लोगों को अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाना होगा। जो भी लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं वह राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही हम आजादी के उत्सव को न देख पाए हों लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जब भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है तब उस महोत्सव के हम सहभागी हैं, उससे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस ब्रिटेन ने हम पर दो सौ वर्षों तक शासन किया उसको पछाड़कर हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के 20 बड़े देश जो जी-20 के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें दुनिया की 65 प्रतिशत आबादी रहती है और जिसका दुनिया की 80 प्रतिशत जीडीपी पर अधिकार है। उस जी-20 समूह की अध्यक्षता आज



भारत कर रहा है। एक ऐसा भारत जो समृद्ध है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 98 वर्ष से पहले यह समय हलचल का रहा होगा, क्या हुआ है कैसे हुआ, आगे क्या होगा, यह तमाम प्रश्न लोगों के मन में कौंध रहे होंगे। वहीं अब विदेशी हुकूमत बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बना रख सकती है, यह जज्बे का भाव भी आया होगा। इसी जज्बे के साथ पंडित राम प्रसाद बिसमिल सहित अन्य क्रांतिकारियों के साथ जुड़कर अभियान को आगे बढ़ाने का काम हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को जो पैसा मिला वह था 4679 रुपया था। विदेशी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाने तक 10 लाख रुपये खर्च किया।

अगर जज्बा हो, सत्संकल्प हो, लड़ने की इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी भौतिक ताकत को गिराया जा सकता है। इसी जज्बे ने उस समय के निरंकुश शासन को चुकने पर मजबूर किया था। अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस पर बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। भारत की आजादी में हमारे जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व की अनुभूति करता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मेरी माटी, मेरा देश अभियान के साथ जुड़ने के अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर निकाय शिलाफलकम के माध्यम से पंच प्रण के जुड़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों ठाकुर रौशन सिंह, अशाफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी, रामकृष्ण खत्री के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कारगिल शहीद केवलानंद द्विवेदी और सुनील जंग के परिजनों का भी सम्मान किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस दौरान लोगों ने अपने हाथ में मिट्टी और मिट्टी का दिया लेकर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इसके अलावा उन्होंने अमृत वाटिका में वृक्षरोपण किया और शहीदों की स्मृति में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, मेयर सुधमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य डा. महेंद्र सिंह, बुककल नवाब, विधायक नीरज बोरा और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद रहे।

## साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में महिला की गला घोटकर हत्या, जंगल में फेंका शव

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, घटना पांच अगस्त की है। पुलिस को फतेहपुर बेरी के जंगल क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिला था।

इस मामले में गहन जांच के बाद महिला की पहचान 31 साल की स्वीटी के रूप में की गई। आरोप है कि उसकी हत्या उसके पति और दो अन्य लोगों ने की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। मामले में फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 302/201/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी धर्मवीर अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था क्योंकि वह अक्सर बिना किसी जानकारी के महीनों तक घर से चली जाती थी। उसने खुलासा किया कि स्वीटी ने कभी भी अपने माता-पिता या परिवार वालों के बारे में नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया था कि वह पटना बिहार की रहने वाली है।

घर में घुस कर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर फोड़ा सिर उठर, संगम विहार इलाके में पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पत्थर से हमला कर महिला का सिर भी फोड़ दिया। महिला की शिकायत पर तीन अगस्त को संगम विहार थाने में छेड़छाड़, मारपीट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़िता अपने परिवार के साथ संगम विहार इलाके में रहती हैं। महिला के दिए बयान के मुताबिक 2021 में उनके पति को ब्रेन हेमरेज हो गया था।

## दिल्ली महिला आयोग ने बाल श्रम के लिए मजबूर की गई 14 वर्षीय लड़की को ग्रेटर कैलाश से बचाया

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने बाल श्रम के लिए मजबूर की गई 14 साल की एक लड़की को बचाया है। पांच अगस्त को दिल्ली महिला आयोग को एक संगठन 'मिस्टर सेवन' से शिकायत मिली, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 इलाके में 14 साल की एक लड़की को घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आयोग ने तुरंत संस्था के कर्मचारियों से संपर्क किया और उन के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन गए।

आयोग की टीम दिल्ली पुलिस अधिकारियों और संगठन के साथ ग्रेटर कैलाश-1 में घटनास्थल पर गई और 14 वर्षीय लड़की को बचाया। उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, वह बहुत डरी हुई और सदा में थी। वह उस घर में वापस न भेजे जाने के लिए गुहार लगा रही थी। लड़की ने बताया कि वह झारखंड के गिरिडीह जिले की रहने वाली है और उसने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई वहीं की है। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं। सने बताया कि उसके भाई और भाभी उसे परेशान करते थे और अक्सर उसकी पिटाई करते थे, इसलिए वह अपने घर से भाग गई और 2021 में अपने पड़ोसी के साथ दिल्ली आ गई, जिसने उसे राजधानी में नौकरी दिलाने का वादा किया था। उसने बताया कि गोविंद नाम के व्यक्ति के जरिए उसे घरेलू काम करने के लिए एक घर में रखा गया था और वह डेढ़ साल से अधिक समय से वहां रह रही थी। लड़की ने आगे बताया कि जिस परिवार के साथ वह काम कर रही थी, उसमें चार सदस्य थे। मकान मालिक, उसकी पत्नी और उनके 18 और 13 साल के दो लड़के। उसने कहा कि वह घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी और उसे घर का सारा घरेलू काम करना पड़ता था।

## 2 अरब से अधिक की ठगी के मास्टरमाइंड ने नौकर के नाम जमा कराया था 30 लाख का सोना, गिरफ्तार

नोएडा। पुलिस कमिश्नरेंट गौतमबुद्ध नगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्राई फ्रूट थोखाथड़ी मामले के मास्टरमाइंड मोहित गौयल का 30 लाख का सोना कुर्क किया है। सोना को नौकर के नाम से मुहूर्त फंडनेस में जमा करके रखा गया था। 12 जनवरी 2021 को सेक्टर-58 थाना पुलिस ने सेक्टर-50 स्थित मेघदूत सोसाइटी के मोहित गौयल और राजस्थान निवासी ओम प्रकाश जांगिड़ को गिरफ्तार किया था। दोनों ने सेक्टर-62 कोरेंथम टावर में दुबई ड्राई फ्रूट एंड स्प्राइस हब नाम से फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी। ये लोग देशभर की विभिन्न फर्मों से मेवे, तेल और मसाले खरीदते थे। फर्म संचालकों का धरोसा जीतने के लिए आरोपी 40 फीसदी केश एडवॉंस में देते थे। फिर उनसे लाखों रुपए के मेवे सहित अन्य सामान लेकर बकाया नहीं देते थे। आरोपियों ने देशभर के सैकड़ों लोगों से दो अरब से ज्यादा रुपए की ठगी की थी। गिरोह का मास्टर माइंड मोहित गौयल जेल में बंद है।

## केजरीवाल सरकार ने पश्चिमी रेलवे के बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अरकपुर बाग मोजी में बनने वाले पश्चिमी रेलवे के बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 96 पेड़ों को हटाने के उत्तर रेलवे के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और सभी 96 पेड़ों को शकूरबस्ती के पास चर्यनित स्थल पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रहित में प्रस्ताव को मंजूरी देकर परियोजना का रास्ता साफ कर दिया। प्रस्ताव को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि उत्तर रेलवे योजना के अनुसार 96 मौजूदा पेड़ों का प्रत्यारोपण और 960 नए पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार से उत्तर रेलवे ने मोती



था। इसके बाद उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। मामले पर एक रिपोर्ट पश्चिम वन प्रभाग के वृक्ष

## अरविंद केजरीवाल ने की कांग्रेस की तारीफ, राहुल को चिट्ठी में लिखा-दशकों तक याद रहेगा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को खत लिखकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वायनाड से सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री व राज्यसभा सदस्य डॉ. मनमोहन सिंह को धन्यवाद दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा वोटिंग करने के लिए धन्यवाद दिया है।

केजरीवाल ने इससे पहले भी जब सदन में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस

कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने इस बिल को काला कानून बताया था, वहीं



उन सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया था जिसने विधेयक के

विपक्ष में वोटिंग की थी। केजरीवाल ने लिखी ये

की दो करोड़ जनता की तरफ से आभार जताया।

उन्होंने लिखा, मैं दिल से आपकी सराहना करता हूँ क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों के सांविधानिक हितों को बचाने के लिए संसद के बाहर और भीतर भरसक प्रयास किए।

मुझे उम्मीद है कि संविधान के उल्लंघनों को बचाने की आपकी ये प्रतिबद्धता दशकों तक याद की जाएगी। संविधान को कमजोर करने वालों के खिलाफ चलने वाली लड़ाई में हम आपका सपोर्ट करना जारी रखेंगे।

## शहीदी पार्क का शिलान्यास एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ

नई दिल्ली। शहीदी पार्क का शिलान्यास एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ। शहीदी पार्क को आईटीओ के पास करीब 4.5 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इस पार्क की खासियत ये है कि यह पार्क भारत के गौरवमयी इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है।

इस पूरे पार्क लगी कलाकृतियों में वेस्ट मेटरियल लोहे के खारब सामान, बिजली के खम्भे, पुरानी कारें, ट्रक, पाकों की प्रिंट, ऑटो मोबाइल पार्ट और पाईप समेत अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। इन कलाकृतियों को 10 कलाकारों और करीब 700 कारीगरों ने मिलकर करीब छह महीने में

विकसित किया है। इस पार्क के निर्माण कार्य में 250 टन से अधिक स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए चम्पा, फाइकस बैनजामिना, फरकेरिया, ऐरिका पॉम, सिंगांगोनियम समेत अन्य प्रजाति के 56 हजार पेड़-पौधे लगाए गए हैं। इस पार्क में आंगतुकों के लिए विभिन्न सेवाओं का प्रबन्ध किया गया है। इसमें स्मारिका की दुकानें व फूड कियोस्क आदि शामिल हैं। पार्क को 9 भागों और 3 चित्रशालाओं में बांटा गया है। शहीदी पार्क में प्रवेश करने के साथ ही आपका भारत के गौरवमयी इतिहास से परिचय की शुरुआत हो जाएगी। प्रवेश करने के साथ ही आप शकुंतला पुत्र भरत और भारत माता की विशाल

मूर्ति से रूबरू होंगे। इसके बाद आपको बीसी 315 से एडी

भोज, और राजेंद्र चोला की मूर्तियां देखने को मिलेंगी।



1044 तक के भारत के स्वर्णिम युग की झलक देखने को मिलेगी। इसमें आपको राजा पोरस, चाणक्य-चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, समुन्द्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, मिहिर

भारत के स्वर्णिम युग की झलक पेश करने के बाद शहीदी पार्क में भारत के वीर सपूतों की विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई की कई कलाकृतियां देखने

को मिलेंगी। महाराणा हमीर देव, राणा कुम्भा, हरिहर बुक्का, राणा सांगा, हेमू, राजा छत्रसाल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और महाराजा पुरजमल की मूर्तियां आपको विदेशी आक्रांताओं के साथ हुए युद्ध से रूबरू कराएंगी। अब आगे आप माराटा सम्राट (1282 से 1763 एडी) से परिचित होंगे। यहां आपको छत्रपति शिवाजी, सम्भा जी महाराज, साहूजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा, बाजीराव सदाशिव राव भोसले, महादजी सिंधिया के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद सिद्ध सम्राट (1670 से 1839 एडी) के बारे में जानने को मिलेगा। यहां बंद बहादुर, बाबा दीप सिंह, जस्सा सिंह, मडबगो,

महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नालवा के इतिहास से परिचित होंगे। इन चर्चों से आगे बढ़ते हैं, तो आपको प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम (1818 से 1858 एडी) से परिचय कराया जाएगा। इसमें रानी चेतन्या, अहम विद्रोही, मंगल पांडेय, लक्ष्मी बाई, तत्वा टोपे, वीर कृष्ण सिंह की कलाकृतियां देखने को मिलेगी। इसके बाद जन आंदोलन संस्कृत व समाजिक जागरण और स्वदेशी आंदोलन (1770 से 1990) के बारे में जानने को मिलेगा। यहां आपको सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद विद्या सागर, गोविंद राव फूले, बिरसा मुंडा और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने को मिलेगा।

## नोएडा में दो ने की आत्महत्या, महिला समेत 3 की संदिग्ध मौत

नोएडा। विभिन्न जगहों पर रहने वाले 2 लोगों ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर लिया। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मोडिया प्रभारी ने बताया कि थाना फेस-वन क्षेत्र में रहने वाले अनुज पुत्र राकेश मूलनिवासी जनपद बुलंदशहर उम्र 23 वर्ष ने मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। वह हरोला गांव में रहता था।

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोडिया प्रभारी ने बताया कि जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में रहने वाले वरुण प्रताप सिंह पुत्र विनय कुमार सिंह उम्र 23 वर्ष ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे उपचार के लिए नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नोएडा के थाना सेक्टर-126 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मोडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में रहने वाली सरिता सिंह पत्नी आजाद सिंह उम्र 59 वर्ष की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-113 क्षेत्र में रहने वाली श्रीमती प्रीति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में रहने वाले प्रवेश कुमार पुत्र जसवीर सिंह उम्र 37 वर्ष की संदीप की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर-58 पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## दिल्ली सरकार की आंगनवाड़ियों को मिल रहा बेहतर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और पोषण

नई दिल्ली। महिला एवं बाल-विकास मंत्री आतिशी ने मंगलवार सुबह लक्ष्मी नगर स्थित केजरीवाल सरकार के आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया। विजिट के दौरान डब्ल्यूसीडी मंत्री ने केंद्र में बच्चों और आंगनवाड़ी वर्कर्स से बातचीत की, एक्टिविटीज में भाग लिया तथा वहां मौजूदा सुविधाओं की पड़ताल की। मंत्री आतिशी ने यहां बच्चों को मिल रहे भोजन की स्वयं खाकर जांच भी की और अधिकारियों को बच्चों के पसंद के अनुसार न्यूट्रिशियस मेन्यू तैयार करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली सरकार द्वारा हाल में ही लॉन्च किए गये खेल पिंटारा किट का बच्चों की लॉन्ग पर बया प्रभाव रहा है उसका इवैक्ट स्टडी करने का भी निर्देश दिया।

आतिशी ने कहा कि अपने स्कूलों को शानदार बनाने के बाद अब केजरीवाल सरकार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को वलूड-क्लास बनाने की दिशा में काम कर रही है। हम अपनी आंगनवाड़ियों को उस हर जरूरी

सुविधा से लैस कर रहे हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक बने। साथ ही इस



दिशा में सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए खास ट्रेनिंग भी डिजाइन कर रही है। उन्होंने कहा कि 1-6 साल की उम्र में जब बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं तो वे कितने जिज्ञासु होते हैं। वे अपने आस-पास की हर चीज के

बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। रिसर्च भी बताते हैं कि एक बच्चे के मस्तिष्क का

सबसे ज्यादा विकास 0-6 साल की उम्र के दौरान होता है। ऐसे में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वह आने वाले हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और पोषण मिले ताकि वो सीखने के क्रम में पीछे न हूँ।

## दिल्ली सरकार ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के निर्माण का रास्ता किया साफ

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के निर्माण कार्य में आ रही बाधा को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट में बांधक बन रहे 107 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने या हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अशोक रोड पर बनाई जा रही कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के निर्माण कार्य में अब तेजी आ सकेगी। इसमें केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने साइट पर बिल्डिंग निर्माण के चलते प्रभावित 107 पेड़ों को हटाने व ट्रांसप्लांट करने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देकर प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया। संबंधित एजेंसी को 107 पेड़ों को हटाने व

ट्रांसप्लांट करने की एवज में 1070 नए पौधे लगाने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा।

साइट पर ट्रांसप्लांटेशन के लिए चिह्नित पेड़ों के अलावा एक भी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। यदि



प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि संबंधित एजेंसी के रूप में सीपीडब्ल्यूडी सभी 107 पेड़ों का प्रत्यारोपण करेगा और वो किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करेगा। सभी पेड़ों का हटाने और प्रत्यारोपण की एवज में 10 गुना पेड़ लगाना अनिवार्य किया है। इसलिए विभाग पारिस्थितिक

संतुलन बनाए रखने के लिए चिह्नित स्थल पर 1070 नए पेड़ लगाने के लिए बाध्य है। अब वो एनटीपीसी इको पार्क में 107 पेड़ों का प्रत्यारोपण करने के अलावा 1070 नए पेड़ पौधे लगाएंगे। इन पेड़ों को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 12 के तहत वृक्ष अधिकारी/उप वन संरक्षक को मंजूरी और विस्तृत वृक्षारोपण प्रोग्राम पेश करने की तारीख से 4 महीने के भीतर चिह्नित भूमि पर लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी सात साल तक पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेगा। दिल्ली सरकार के अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण के बदले में दिल्ली की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे।

## महिला आयोग ने ईडब्ल्यूएस मरीजों के साथ भेदभाव करने वाले एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवायी

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के साथ गलत व्यवहार करने और उनके साथ भेदभाव करने के आरोप में शहर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। आयोग की पूर्व सदस्य जुही खान से आयोग को अस्पताल द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि एक निजी अस्पताल - मधुकर रेनबो हॉस्पिटल, मालवीय नगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों के साथ भेदभाव कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल इन मरीजों को पहचान कर अलग कर रहा है और उन्हें अस्पताल के बेसमेंट (कार पार्किंग में) में एक अलग क्षेत्र में बैठाया जा रहा है, जहां बैठने की कोई उचित सुविधा और एयर कंडीशनर नहीं है। आरोप है कि महिला एवं बाल रोगियों को अमानवीय परिस्थितियों में बैठने को मजबूर किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि ईडब्ल्यूएस मरीजों को नियमित डॉक्टरों के बजाय अलग-अलग डॉक्टरों द्वारा देखा जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को नोटिस जारी किया और मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग के नोटिस के बाद डीजीएचएस की एक टीम ने अस्पताल में औचक निरीक्षण किया और वहां कई खामियां देखीं। उन्होंने देखा कि अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वार पर ईडब्ल्यूएस डिस्पेंस बोर्ड गायब था और रिसेप्शन क्षेत्र पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने वाला बोर्ड गायब था। उन्होंने यह भी देखा कि ईडब्ल्यूएस रोगी के इलाज के लिए डॉक्टर का कमरा बहुत छोटा था और परीक्षण के

लिए मुश्किल से ही कोई जगह थी। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस रोगियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र और ओपीडी काउंटर बिना किसी बुनियादी सुविधाओं या वहां तक पहुंचने के लिए उचित दिशा-निर्देश/चिह्न/संकेतकों के बिना बेसमेंट में स्थित था। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस ओपीडी रजिस्टर में मरीजों की पूरी जानकारी जैसे संपर्क नंबर आदि ठीक से दर्ज नहीं थी। अस्पताल में देखी गई समस्याओं पर कार्रवाई करते हुए डीजीएचएस ने उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीजीएचएस

ने अस्पताल से प्रवेश और निकास द्वार पर ईडब्ल्यूएस बोर्ड और रिसेप्शन क्षेत्र में निगरानी समिति के नाम वाला बोर्ड लगाने को कहा है। साथ ही, अस्पताल को ईडब्ल्यूएस और भुगतान श्रेणी के मरीजों के क्षेत्र को अलग करने की प्रथा को खत्म करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें दोनों श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र समान रखने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस मरीजों के इलाज की सुविधाएं भुगतान श्रेणी के मरीजों के बराबर होनी चाहिए।

# दुजाना प्रीमियर लीग सीजन दो 2023 की होगी शुरुआत

दादरी। दुजाना प्रीमियर लीग सीजन दो 2023 गांव में एक बार फिर दुजाना लीग सीजन दो की शुरुआत होने जा रही है। दुजाना वासियों का कहना है कि सीजन एक का आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था जितनी अपेक्षा की थी उससे कहीं बेहतर सीजन एक की समाप्ति हुई थी। लगभग 3 से 4 महीने पहले सीजन 2 की चर्चा गांव दुजाना में ज़ोरों से चल रही थी पर कोई दिनांक तय नहीं हुई थी पर अब समस्त ग्राम दुजाना व आसपास के गांवों में सीजन दो का आरंभ कराने का निर्णय लिया है गया है। दुजाना के सभी खिलाड़ी दुजाना प्रीमियर लीग

सीजन दो के लिए बेहद उत्साहित है। जिसके चलते अभी तक 150 खिलाड़ियों के सीजन दो में

खेलने के लिए आवेदन आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि पहले 6 टीमों गांव से सीजन दो के लिए बनाई जानी थी पर अब आवेदनों को देखते हुए 8 टीमों पर विचार आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। प्रीमियर लीग में प्रथम पुरस्कार ₹21000 और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार ₹11000 और ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार ₹5100 और ट्रॉफी, चतुर्थी पुरस्कार ₹3100 और ट्रॉफी, पांचवां पुरस्कार ₹2100 और ट्रॉफी, छठा पुरस्कार ₹1100 और ट्रॉफी रहेगी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 11 से रूपए और ट्रॉफी रहेगी। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ₹750 रूपए ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ₹750 और

ट्रॉफी अधिकांश छक्के ₹500 और ट्रॉफी अधिकांश चौकी ₹500 और ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ फील्डर रक्षक ₹500 ट्रॉफी दी जायेगी। प्रीमियर लीग में ओमपाल नागर पति ब्लॉक प्रमुख बिसरख, रणपाल नागर प्रधान दुजाना, हरेंद्र नागर प्रधान मैनेजर, संजीव नागर टेकेदार, कर्मवीर समाज सेवक युवा नेता, अनिल नागर प्रधान, मोनु प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, ब्रह्म सिंह नागर जेडीएस कंस्ट्रक्शन, कुलदीप नागर इंजीनियर, ओम नागर एडवोकेट, यतेंद्र नागर बीडीसी, निर्देश पहलवान बीडीसी विशेष सहयोग रहेगा।



**ग्रेटर नोएडा:** देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन की गई आजाद हिंद फौज में जांबाज सिपाही के रूप में लड़ाई लड़ने वाले और इस देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दनकौर क्षेत्र के गांव कनारसी निवासी स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्र सिंह नागर की धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी एवं परिजनों को क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित कराने की मांग को लेकर करणाना प्री इंडिया संगठन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी मनीष वर्मा से मिला। करणाना प्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय एवं आलोक नागर ने बताया कि गांव कनारसी निवासी स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह नागर जी ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठन की गई आजाद हिंद फौज में जांबाज सिपाही के रूप में कार्य किया। ब्रिटिश सरकार से अनेकों लड़ाइयों लड़ी। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्र सिंह नागर जी ने लंबे समय देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहकर आजादी की विभिन्न योजनाओं में भाग लिया। चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में स्वर्गीय चंद्र सिंह नागर जी कई वर्षों तक बर्मा की जेल में ब्रिटिश सरकार की कैद में रहे। स्वतंत्रता सेनानी चंद्र सिंह नागर जी की धर्मपत्नी विद्या देवी जी सौभाग्य से अभी जीवित हैं। उनका भरा पूरा परिवार गांव का कनारसी में रहता है। संगठन के प्रदेश महासचिव मास्टर दिनेश नागर ने बताया कि पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्र सिंह नागर जी की धर्मपत्नी विद्या देवी एवं उनके परिजनों की अनेक जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि 76 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी के घर जाकर उनकी धर्मपत्नी विद्या देवी जी एवं उनके परिवार को सम्मानित करने एवं पैतृक गांव कनारसी में उनकी स्मृति में गांव के मुख्य द्वार का निर्माण या समर्पित स्थल पर प्रतिमा लगाकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के महानायक स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्र सिंह नागर जी को सम्मान के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार वह स्वयं या किसी जिला प्रशासनिक अधिकारी को भेज कर स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी विद्या देवी एवं उनके परिजनों को सम्मानित कराया जाएगा। इस दौरान - आलोक नागर बलराज हूण मास्टर दिनेश नागर राकेश नागर सत्येंद्र कपासिया सुभाष नेताजी विजेन्द्र सिंह रोहतास नागर हरेंद्र कसाना कुलबीर भाटी आदि लोग मौजूद रहे।

**सीएसआर निधि को उपभोग करने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक संपन्न**



**गौतम बुद्ध नगर।** डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सीएसआर निधि को उपभोग करने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक संपन्न जिलाधिकारी ने सीएसआर निधि से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए निर्देश सीएसआर निधि से कार्य करने वाली कंपनियों अपनी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना करावें उपलब्ध उत्तर प्रदेश के मा० मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप सीएसआर निधि का जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व पोषण पर व्यय करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएसआर निधि के उपभोग करने के लिए गठित की गई जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति के अधिकारियों एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि सीएसआर निधि का प्रयोग जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व पोषण पर अधिक से अधिक करने पर विशेष फोकस रखा जाए। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सीएसआर निधि के माध्यम से कार्य करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर में अब तक सीएसआर निधि से जो कार्य कराए गए हैं, उनकी सूचना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसआर निधि से जो कार्य कराए जाने की योजना तैयार की गई है, उसको जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति के सामने प्रस्तुत करें, ताकि उसमें जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा भी कुछ सामाजिक कार्यों को जोड़ा जा सके। इस अवसर पर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी सीएसआर निधि को लेकर अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक का सफल संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी, अर्थ एवं संस्था अधिकारी शिवराज, अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

**माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन**



**ग्रेटर नोएडा।** माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट), गौतम बुद्ध नगर का दिनांक 9 अगस्त 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय सूरजपुर पर धरना आयोजित किया गया। धरने में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के माध्यम से 26 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया व जनपद स्तर की समस्याओं के संबंध में भी एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया। धरने में जिला अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह नागर, रामकुमार सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, कर्मवीर सिंह, दानवीर सिंह, सतीश कुमार, खजानी सिंह, आकाश सिंह सेंगर, अजय चौधरी आदि अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं व प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया।

## मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत पंचप्रण शपथ कार्यक्रम का आयोजन

गौतमबुद्धनगर। कु. मायावाती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर में आज दिनांक 09 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एक एवं दो के द्वारा पंच-प्रण शपथ



आयोजित की गयी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 09 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश एवं घर तिरंगा अभियान को एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई, 2023 को मन की बात के 103 वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था अभियान के तहत हमारे अमर शहीदों की याद में पूरे भारत में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) दिव्या नाथ के मार्गदर्शन में सादोपुर झाल से ग्राम पंचायत बादलपुर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) दिव्या नाथ ने संदेश दिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अतीत के गौरव, वर्तमान की प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि यह देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक भी है इस यात्रा में सम्मिलित केनरा बैंक के मैनेजर श्री नीरज कुमार ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद जब हम पुनः राष्ट्र निर्माण की अनवरत यात्रा प्रारम्भ कर रहे हैं। ऐसे में तिरंगा एक बार फिर देश की एकता और चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान बादलपुर श्रीमती माहिष्मती जी ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं में शहीदों एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति व आदर का भाव पैदा करना है। ब्लू डायमंड स्कूल के चेयरमैन श्री अनिल नागर जी ने सभी छात्राओं से देश हित में समर्पित रहने की अपील करते हुए अपने दायित्वों का प्रति सजग रहने का संदेश दिया। इस तिरंगा यात्रा में महाविद्यालय के एन सी सी कैडेट्स, एन एस एस स्वयं सेवकों सहित सादोपुर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाग लिया। आज सादोपुर की झाल से बादलपुर तक का पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों के उद्घोष से गुंज उठा। तिरंगा यात्रा में लोग देश भक्ति गीतों पर झूम उठे। लोगों का उत्साह देखने लायक था स्वतंत्रता सप्ताह के आयोजन के क्रम में महाविद्यालय प्रांगण में पंच प्रण शपथ भी आयोजित की गई जिसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से 566 छात्राओं द्वारा सहभागिता प्रस्तुत की गई। आज यह अवसर महाविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा जो एक नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में संस्था को सकारात्मक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर महाविद्यालय में पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन राईटिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय में हुए इन समस्त आयोजनों में एन. सी. सी. कैडेट्स तथा एन.एस.एस स्वयं सेवकों के साथ साथ शिक्षकों की सहभागिता एवं उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. दिव्या नाथ के कुशल निदेशन, राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार डॉ. दीपति बाजपेयी एवं डॉ. नीलम शर्मा, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रभारी डॉ. मीनाक्षी लोहानी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सीमा देवी एवं डॉ. अपेक्षा तिवारी सदस्य डॉ. रंजना उपाध्याय एवं महाविद्यालय की आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन समिति प्रभारी डॉ. संजीव कुमार द्वारा किया गया।

## भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति ने पिलुखवा टोल प्लाजा को ज्ञापन सौंपा


**गौतमबुद्धनगर।** भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के नेतृत्व व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मति सरयू शर्मा जी के आवाहनी के सम्वन्ध में टोल के अधिकारियों को वेब सिटी थाना के एस्पेसओ बिजेंद्र कुशवाह जी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस मौका सेकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा का घेराव किया इस मोके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सलाहकार राकेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जितेंद्र कसाना राष्ट्रीय महासचिव हकाम दीक्षित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आजाद कसाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य यामिन सैफी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश



, दिनेश भाटी युवा प्रदेश अध्यक्ष अक्षय शर्मा, महिला मोर्चा नेत्री मंजु चौधरी, जिला अध्यक्ष रामवीर शर्मा, युवा संयोजक नितिन शर्मा युवा महासचिव, तरुण चौधरी, युवा अध्यक्ष प० शाहरुख मलिक, मनिंदर नागर जी, युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद नरेश कुमार, युवा जिला अध्यक्ष बुलन्दशर

(बमबावड़), बिजेंद्र कसाना, दीपांशु कसाना, अनिल कसाना मनीष कसाना, दीपक कसाना, अविनिश कसाना गौरव नागर, श्यापाल कसाना, सोनु डलिया, कुलदीप डलिया, दीपू पंडित, अक्षय पंडित, अंकित शर्मा, विकास नागर, ललित नागर, शैखर शर्मा, यूसूफ खान, रजत धामा विक्रान्त पांडेय, ललित त्यागी, शुभ त्यागी, अरमान मलिक, शहजाद, रफी त्यागी, साहिल सेफी, फैजल सेफी, यश शर्मा, दीपक, सूरज अंकुर, आरके सिंह, यश कुमार, जातिंद खंडा, धर्मपुरा, सरजीत कुमार, पुनीत कुमार, गुलिया कुमार, अन्य सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## जीआईएमएस, ग्रेटर नोएडा में पंच प्राण शपथ



**गौतमबुद्धनगर।** आजादी के 75 साल के दो साल के जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के समापन पर आज से मेरी माटी-मेरा देश अभियान शुरु होगा। सभी सारकारी कार्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि को "पंच प्राण शपथ" का

संचालन करने का निर्देश दिया जाता है। पंच प्राण शपथ जीआईएमएस, ग्रेटर नोएडा के संकाय, कर्मचारियों और छात्रों को जीआईएमएस के अकादमिक ब्लॉक में फामाकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख प्रोफेसर के डी त्रिपाठी द्वारा दिलाई गई। कार्यक्रम



की शुरुआत एनार्टामी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रंजना वर्मा द्वारा अभियान के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के साथ हुई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डॉ. पीएस मित्तल, डॉ. भारती राठौड़, डॉ. मनीषा सिंह, डॉ. इजान भट्टाचार्य और अन्य संकाय भी उपस्थित

थे। "पंचप्राण" शपथ में शामिल हैं: पहला, बड़े संकल्पों और "विकसित" भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ें; दूसरा, दासता के सभी निशान मिटा दें; तीसरा, हमारी विरासत पर गर्व करें; चौथा, हमारी एकता की ताकत और पांचवां, नागरिकों के कर्तव्य।

## "अंग्रेजों भारत छोड़ो" आंदोलन के ऐतिहासिक दिवस पर नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियन्स मोर्चा का जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव

ग्रेटर नोएडा, भाजपा सरकार की मजदूर- किसान, कर्मचारी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं संगठित व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की विभिन्न मांगों के लिए "अंग्रेजों भारत छोड़ो" आंदोलन के ऐतिहासिक दिवस पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आवाहन पर 09 अगस्त 2023 को जिला मुख्यालय पर महापड़ाव के आह्वान के तहत नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियन्स मोर्चा गौतमबुद्धनगर कार्यालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा पर महापड़ाव के माध्यम से एचएमएस के नेता आरपी सिंह चौहान, सीआईटीयू के नेता राम सागर, गणेश्वर दत्त



शर्मा, यूटीयूसी के नेता सुधीर त्यागी, नूर आलम, एटक के नेता मोहम्मद नईम, ऐक्टू के नेता अमर सिंह, एल पी एफ के नेता आर एम सिंह, टीयूसीआई के नेता उदय चंद्र झा द्वारा ज्ञापन

जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को देकर मांग किया गया, कि लंबे समय से प्रदेश के मजदूरों का वेज रिवीजन नहीं हुआ, बढ़ती महंगाई के मद्देनजर व श्रमिक हित में

इंजीनियरिंग वेज बोर्ड और सामान्य वर्ग के श्रमिकों का वेतन अति शीघ्र बढ़ा कर रुपया 26000 हजार करने के साथ ही न्यूनतम पैशन ₹8000 घोषित की जाए, चारों श्रम संहिता रद्द की जाए और सभी श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराने की मांग की गई साथ ही सविदा श्रमिकों को प्रतिष्ठान के स्थाई श्रमिकों के बराबर वेतन दिया जाए ताकि समान काम के लिए समान वेतन मिल सके साथ ही सभी सविदा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बोनस भुगतान कराया जाए, गौतमबुद्धनगर उप-श्रम कार्यालय व श्रम न्यायालय का स्थाई भवन बनाकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध

कराने व लिपिक/ कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने, रेहड़ी-पटरी, खोमचावालों का उत्पीड़न बंद कर पथ विक्रेता अधिनियम को सही तरीके से लागू करते हुए सभी का पंजीकरण कर लाइसेंस देने, भवन निर्माण मजदूर का पंजीकरण कर सभी योजनाओं का लाभ देने और श्रम न्यायालय में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई तथा जनपद में श्रमिक कॉलोनी बनाने एवं मजदूर बस्तियों में मूलभूत जन सुविधा उपलब्ध कराने सहित आदि मांगे की गई है। डीएम कार्यालय पर सैकड़ों श्रमिकों ने प्रातः 11:00 बजे से महापड़ाव

शुरू किया। जो कि देर रात तक जारी रहेगा। धरने को ट्रेड यूनियन नेता डॉ० के०पी० ओझा, राम सागर, मो० नूर आलम, अमर सिंह, उदय चंद्र झा, गणेश्वर दत्त शर्मा, लता सिंह, मुकेश कुमार राघव, अमीचंद, हुकुम सिंह, सुनील पंडित, राजकरण सिंह, रंजीत तिवारी, रामस्वारथ, पुनम देवी, जनवादी महिला समिति के नेता रेखा चौहान, गुडिया देवी, पिकी आदि ने संबोधित किया। और आजादी की जंग में हुए शहीदों को याद करते हुए उनके योगदान को रेखांकित किया। एवं सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों पर चल रहे संघर्षों को तेज करने का ऐलान किया।




अकेले मत रहिए

हेल्थ प्लान

वर्कआउट से पहले

अलग-थलग रहना हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदेह है। एक स्टडी में पाया गया है कि अकेलापन हेल्थ के लिए उतना ही खतरनाक है जितना मोटापा या स्मॉकिंग।



के सिसोपो का कहना है, 'अकेलेपन से व्यक्ति को इच्छाशक्ति कम होती है। स्वस्थ जीवन जीने की उसकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। अकेलापन बीमारियों से लड़ने वाली हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।

कैल्शियम

कैल्शियम किसी भी महिला के लिए, किसी भी उम्र में हड्डियों के विकास में मददगार होता है। युवावस्था तक लड़कियों के लिए कैल्शियम की सही मात्रा का सेवन इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से उनकी हड्डियाँ का सही विकास नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में उम्र बढ़ने पर उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की आशंका बढ़ जाती है। 35 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को नियमित रूप से कैल्शियम लेने की सलाह इसलिए दी जाती है, क्योंकि इसकी कमी के कारण उनकी हड्डियाँ आसानी से टूट सकती हैं और वो आसानी से जुड़ भी नहीं पाएंगी। कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, जूस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साल्मन व सार्डिन मछली और सोया मिल्क कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं।



एक हफ्ते में चार दिन वर्कआउट करें और बाकी दिन आराम करें। ध्यान रखें कि ऑफ लेने से पहले दो दिन से ज्यादा वर्कआउट न करें। इससे मसल्स बनेंगे, क्योंकि ये तब बनते हैं जब आप आराम करते हैं।

एक घंटे की ट्रेनिंग के बाद कंसन्ट्रेट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी लैवल कम हो जाता है। इसलिए वर्कआउट के दौरान अलग-अलग एक्टिविटीज करें। हफ्ते में 2-3 बार 20 मिनट के लिए एरोबिक्स भी कर सकते हैं।

बारिश का मौसम गर्मी का तीखापन कम करता है। आसमान में छाप काले बादल मन को खुशी तो देते हैं, पर वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में बालों और स्किन का खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम न हो।

बरखा बहार सेहत खुशगवार



मानसून की फुहारें झुलसा देने वाली गर्मी से निजात देती हैं। इसलिए बरसात का मौसम आपको पसंद आ रहा होगा, पर साथ ही यह कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। इसलिए आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है...

स्किन संबंधी परेशानियों का कारण कई बार हमारी लापरवाही भी होती है। कई बार हम काफी समय तक गीले कपड़ों में ही काम करते रहते हैं या संक्रमित पानी में से गुजरने के बाद पांवों को अच्छी तरह साफ नहीं करते, इससे स्किन इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।

पहनने से पांवों के अगले हिस्से में होता है। इससे पैरों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपन फुटवीयर पहनें। अगर शूज पहने हों, तो उन्हें उतार दें। जब भी पैर बारिश के गंदे पानी से भीगें, जल्द से जल्द एंटीफंगल साबुन से इन्हें धोकर साफ कर लें।

रिंगवर्म शरीर के वे हिस्से जो आमतौर पर ढंके रहते हैं या बॉडी फोल्ड्स में रिंगवर्म होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। यह इंफेक्शन आमतौर पर अंडरआर्म और कमर में होती है। इससे प्रभावित हिस्से में खुजली होती है और लाल च सफेद रंग के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में यह समस्या होने की आशंका अधिक होती है।

स्केबीज यह भी स्किन संबंधित रोग है, जो नमी के कारण होता है। इसे स्किन पैरासाइटिक इंफेक्शन कहते हैं। बच्चों को इसका खतरा अधिक होता है। स्केबीज में मरीज के सारे शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, जिनमें खुजली होती है और उंगलियों के बीच रैशज भी हो जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। अगर घर में किसी एक सदस्य को स्केबीज हो गई हो, तो अन्य लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

सावधानी बरतें हेयर केयर इन दिनों बालों को चिपचिपापन, रूखापन व डैंड्रफ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में पानी में क्लोरिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो बालों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बालों को सफाई का ध्यान रखें और इन्हें बारिश में भीगने से बचाएं। जब आप बारिश से भीगकर कर आएँ, तो सबसे पहले बाल धो लें। इससे बालों से सारी ग्रीस और मिट्टी हट जाएगी। गीले बालों को अधिक समय तक बांधकर न रखें, इससे खुजली होने लगती है। हमेशा माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें। हर बार बाल धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। इन्हें बांधने से पहले अच्छी तरह सुखने दें। ध्यान रखें बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

कूलर में पानी जमा न होने दें। जब पानी इकट्ठा होता है, तो वहां मच्छर पैदा होते हैं। इससे वहां मलेरिया और डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है। सुनिश्चित करें कि आपका घर साफ-सुथरा रहे। क्रांस वैटीलेशन बहुत जरूरी है। सुबह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें, ताकि थूप कमरों में आ सके। वॉल टू वॉल कारपेट न बिछाएं।

पर्सनल हाइजीन- बाहर से लौटने के बाद हाथ-पैर साबुन से धोने की आदत डालें। खाना पकाने, परोसने और खाने से पहले भी हाथ जरूर साफ करें। इससे इंफेक्शन की आशंका काफी कम हो जाती है। कॉटन के लूज कपड़े पहनें। सिंथेटिक व गीले कपड़े मत पहनें और न ही गीले शूज पहनकर बैठें रहें।

इसका भी रखें ध्यान- यदि अस्थमा हो, तो तेज परफ्यूम न लगाएं। भोजन से पहले दिन में दो बार शहद डालकर नींबू-पानी पिएं। अर्धराष्ट्रि में कुछ दिनों तक ऐसी एक्टिविटीज से बचें, जिनसे जोड़ों पर स्ट्रेन पड़ता हो। डायरिया होने पर केवल लिक्विड्स ही लें, जब तक (एक-दो दिन) आपका डायरिया सिस्टम ठीक न हो जाए। स्प्राइसी फूड, कच्चे फल, एल्कोहल, कॉफी और डेयरी प्रोडक्ट्स का तीन दिन तक इस्तेमाल न करें। दिन के समय क्रीम की बजाय लाइट मॉइश्चराइजर या लोशन का इस्तेमाल करें। पसीना न सुखने के कारण शरीर पर घमोरियां हो जाती हैं। नहाने से पहले उन पर हथी लगाने से राहत मिलती है।

टाईम पास

Today's puzzle section including 'आज का राशिफल', 'कौशिक', 'वृष', 'मिश्र', 'कर्म', 'सिंह', 'मा जी नू मे गो', 'कन्या', 'तुला', 'धनु', 'मकर', 'कुंभ', and 'मीन' horoscopes and puzzles.

काकुरो पहेली - 2911 and काकुरो - 2910 का हल. Includes a grid and solution for Kakuro puzzles.

हंसी के फूत्तारें. A word puzzle with a grid and clues in Hindi.

फिल्म वर्ग पहेली- 2911. A grid puzzle with film titles as clues.

सूडोकू -2911. A 9x9 grid puzzle with numbers.

शब्द पहेली - 2911. A word puzzle with a grid and clues.

बाएँ से दाएँ. A list of 37 clues for a word puzzle.



